

प्रेस नोट

लोगो को फोन करके फर्जी बीमा कर ऋण दिलाने/बीमा पूरा होने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठने वाले वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को थाना हाथरस जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 13.02.2021 को पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार इनामी/वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्दराराऊ के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा फोन कर फर्जी बामा कर ऋण दिलाने या बीमा पूरा होने के नाम पर धोखाधड़ी कर फाइल चार्ज, कमीशन, एग्रीमेन्ट आदि के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में रुपये डलवाकर रुपये ऐंठने वाले वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना हाथरस जंक्शन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 28.08.2020 को वादी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी नगला केशों थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस से बीमा कराने तथा बीमा पूरा होने का आश्वासन देकर धोखाधड़ी कर प्रार्थी से करीब 5 लाख रुपये ऐंठ लिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री वीरेन्द्र कुमार उपरोक्त की तहरीर पर थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक हाथरस जंक्शन व साइबर सेल को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 07.01.2021 को थाना हाथरस जंक्शन पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही में गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी मुकदमें में अभियुक्त राहुल कुमार अरविन्द भाई पटेल उम्र करीब 47 वर्ष निवासी मकान नं० 20 पंचवटी सोसायटी समरखा अपोजिट न्यू वाटर टैंक ग्राम व पोस्ट समरखा थाना रुरल एरिया आनंद जनपद आनंद (गुजरात) वांछित चल रहा था।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं व मेरे दोस्त मिलकर हम लोग पहले प्रतिष्ठित बीमा कम्पनियों में काम करते थे तथा उन्हीं कम्पनियों के डाटा से हम लोग, लोगो को फर्जी मोबाइल नम्बर से फोन मिलाकर बीमा कराने का आश्वासन देकर या उनके बीमा पूरा होने का आश्वासन देकर धोखाधड़ी कर फाइल चार्ज, कमीशन, एग्रीमेन्ट आदि के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में रुपये डलवाकर रुपये ऐंठते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता-

राहुल कुमार अरविन्द भाई पटेल उम्र करीब 47 वर्ष निवासी मकान नं० 20 पंचवटी सोसायटी समरखा अपोजिट न्यू वाटर टैंक ग्राम व पोस्ट समरखा थाना रुरल एरिया आनंद जनपद आनंद (गुजरात)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव यादव थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।
2. वरि० उ०नि० श्री आदेश कुमार थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस
3. है० का० 456 राहुल यादव थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

PRO CELL HATHRAS